

केंद्रीय वद्यालय क्रमांक 2 अजमेर

कक्षा 11 में नवीन प्रवेश हेतु सूचना 2020 - 21 दिनांक 24.07.20

1.Registration for fresh admission in Class 11 Science and Commerce streams for non KV students will be done online from 24 July 2020 (8 a.m. onwards) to 7 August 2020 (up to 4 p.m.)

2. For this the students and parents are requested to check the eligibility of the child for the admission in the different streams:

For Science stream at least 60% marks in aggregate and for Commerce stream at least 55% marks in aggregate is required.

To opt for Mathematics in Science or Commerce stream as per the CBSE circular the student should have opted **STANDARD MATHEMATICS** in class 10th.

For concessions, the priority of admissions and other details it is requested to please refer to the KVS Admission Guidelines 2020 - 21 available on the official website <https://kvsangathan.nic.in>

3. Registration form and service certificate (only for service class for category 1 to 4) is available for download on the Vidyalaya website <https://no2ajmercrpf.kvs.ac.in>

Kindly fill registration form get the service certificate signed by your head of the department scan it and send it along with the following scanned copies (clear and PDF ONE file only) of all supporting documents (self-attested) on the email of the vidyalaya : kv2ajmeradmission@gmail.com

- i) Registration form.
- ii) Copy of the mark sheet of class 10th.
- iii) Caste certificate (if applicable).
- iv) Address proof.
- v) Copy of Report of blood group.
- vi) Certificates of Participation (If concession is desired)
- vii) Single Girl Child Affidavit duly attested by first class magistrate (If applicable)
- viii) Aadhar Card (Not mandatory)

NOTE: If you are unable to submit the registration form scanned copy through email you can visit the vidyalaya and drop the registration form and other supporting documents (self-attested) in the box placed at the school main gate.

As far as possible please submit all your documents and registration form electronically.

4. A link of the option form is also available on Vidyalaya website please click the URL link and fill the option form carefully and submit. It is to be mentioned that the option form is to be submitted only once and there is no option to edit it, so fill it very carefully. There is no need to send the hard copy of the option form.

5. Strictly follow Instructions 3 and 4. In case of any discrepancy, false information, incomplete form, non-submission of Registration form (online or offline) and option form (online), the application will be rejected and no appeal against the decision of the vidyalaya will be entertained.

6. The selected candidates as per the KVS admission guidelines and vacancies available in the different streams will be intimated telephonically. A list of all selected students and the waiting list will be available on the vidyalaya website and will also be displayed at the Notice Board near the Vidyalaya main gate.

It is requested that under the present situation of COVID- 19, the directions issued by competent authorities (Central /State /Local) are to be followed. Accordingly the parents are requested to please avoid visiting the Vidyalaya physically and avoid unnecessary gathering.

For any query or help please contact the Vidyalaya **from 11:00 a.m. to 2:00 p.m.** on all working days on the following numbers: 0145 2600675, 8118810427.

STAY HOME STAY SAFE

PRINCIPAL

K.V. NO.2 AJMER



केन्द्रीय विद्यालय संगठन Kendriya Vidyalaya Sangathan

केन्द्रीय विद्यालय क्रमांक 2, अजमेर
Kendriya Vidyalaya No.2, Ajmer

वर्ष/Year 2020-21

PART - D FORMS AND FORMATS

पंजीकरण सं. / Reg. No.

Photograph of the child
(Passport size)

क्रम सं./S.No.

पंजीकरण के लिए कक्षा/Registration for class (Put tick mark in appropriate box)

प्रथम पाली
1st Shift

अथवा
OR

द्वितीय पाली
IInd Shift

पु./M

स्त्री/F

1. विद्यार्थी का पूरा नाम

Name of child in full (in Capital letters)

लिंग
Sex

दिवस Day

माह Month

वर्ष Year

2. जन्म तिथि (अंकों में) Date of Birth

शब्दों में /In words

बच्चे की आयु 31.3. तक
Age as on 31-3-

वर्ष
Years

मास
Months

दिन
Days

3. बच्चे का रक्त समूह Blood Group of the child

4. छात्र की श्रेणी /The category to which the child belongs

सामान्य श्रेणी
Gen. Cat

अनु. जाति
SC

अनु. जन जाति
ST

ओ.बी.सी.
OBC

आर्थिक रूप
से कमजोर वर्ग
EWS

बी.पी.एल
BPL

विकलांग
Disabled

इकलौती कन्या
SG Child

5. क्या छात्र (अनुसूचित जाति/जनजाति/ओ बी सी/ आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/बी.पी.एल/विकलांग/इकलौती कन्या) के अन्तर्गत है, यदि हां तो प्रमाण-पत्र संलग्न करें (सत्यापित प्रति)।
Whether the child belongs to (SC/ST/OBC/EWS/BPL/Disabled/S.G. Child) category. If yes, please attach relevant certificate (attested copy)

6. माता-पिता का ब्यौरा / Details of Mother and Father

माता / Mother

पिता / Father

(i) नाम / Name (in Capital letters)

(ii) राष्ट्रियता / Nationality

(iii) व्यवसाय / Occupation

(iv) कार्यालय का नाम, पूरा पता व दूरभाष

Name of Office and full address with
telephone numbers

(v) पूर्ण आवासीय पता मय पिन कोड (मय साक्ष्य) व दूरभाष

Full residential address with pincode (with proof)
and telephone numbers

(vi) विद्यालय से दूरी / Distance from KV*

(vii) स्थाई पता / Permanent Address

(viii) मूल वेतन / Basic Pay

(ix) 31-3- तक सेवाकाल के दौरान 7 वर्षों में स्थानान्तरणों की संख्या
No. of transfers during 7 years as on 31-3- of the year

(x) श्रेणी रक्षा/केन्द्रीय कर्मी/राज्य कर्मचारी/स्वायत्तशासी व अन्य

Category to which the Parent belong to
Defence/Central Govt./State Govt. / Autonomous body & others

(xi) कर्मचारी कूट / Employee Code

मैं एतद् द्वारा यह प्रमाणित करता हूँ कि उपर्युक्त प्रविष्टियां मेरी जानकारी में सत्य हैं।
I certify that the above entries are true to the best of my knowledge.

अभिभावक के हस्ताक्षर / Signature of Parent

पूरा नाम / Full Name

तिथि / Date :

पावती / Acknowledgement

क्रम सं. / S. No.

पंजीकरण संख्या / Registration No.

श्री/श्रीमती से उनके पुत्र/पुत्री का कक्षा में प्रवेश हेतु
पंजीकरण आवेदन पत्र प्राप्त किया।

Received an application from Shri/Smt..... for registration of
her/his son/daughter for admission to class.....

तिथि / Date

प्राचार्य/Principal

केन्द्रीय विद्यालय क्र.2, अजमेर/Kendriya Vidyalaya No.2, Ajmer

Note : 1. Proof of residence shall have to be produced by all applicants.

* 2. A self declaration from the parent for distance may also be accepted by furnishing an undertaking to this effect.

सेवा प्रमाण-पत्र/SERVICE CERTIFICATE

(केन्द्रीय सरकार/Central Govt.)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती-----
----- कार्यालय/मंत्रालय में नियमित कर्मचारी के रूप में कार्यरत है। वे रक्षा सेवा/केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल/सीगा सुरक्षा बल/एन.एस.जी./एस.पी.जी./सी.आई.एस.एफ./केन्द्रीय सरकार स्वायत्त संस्था अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम जो पूर्ण या आंशिक रूप से केंद्र सरकार से वित्त-पोषित है, के नियमित कर्मचारी हैं तथा उनकी सेवा अस्थानांतरणीय है/पूर्ण भारत में कहीं भी स्थानांतरणीय है।

Certified that Shri/Smt.....is working as regular employee in the office/Ministry of He/She is a regular employee of Defence Service/CRPF/BSF/NSG/SPG/CISF/Central Govt./Autonomous Body/Public Sector Undertaking fully financed/partially financed by Central Govt. and his/her services are non-transferable/transferable anywhere in India.

स्थान/Place _____
दिनांक/Date _____

कार्यालय अध्यक्ष के हस्ताक्षर
(नाम, पद और कार्यालय की मोहर सहित)
Signature of Head of the Office
(With Name, Designation and Office Stamp)

कार्यालय का पूर्ण पता एवं दूरभाष संख्या _____
Complete address and Telephone No. of office _____

सेवा प्रमाण-पत्र/SERVICE CERTIFICATE

(राज्य-सरकार/State Govt.)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती-----
-----कार्यालय/मंत्रालय में नियमित कर्मचारी के रूप में कार्यरत है। तथा उनकी सेवा अस्थानांतरणीय है/पूर्ण राज्य में कहीं भी स्थानांतरणीय है।

Certified that Shri/Smt..... is permanently working in the office/Ministry of and his/her services are non-transferable/transferable anywhere in State.

स्थान/Place _____
दिनांक/Date _____

कार्यालय अध्यक्ष के हस्ताक्षर
(नाम, पद और कार्यालय की मोहर सहित)
Signature of Head of the Office
(With Name, Designation and Office Stamp)

कार्यालय का पूर्ण पता एवं दूरभाष संख्या _____
Complete address and Telephone No. of office _____

स्थानांतरण संख्या प्रमाण-पत्र/CERTIFICATE OF NUMBER OF TRANSFERS

में, _____ (नाम) _____ (रैंक/पदनाम) _____ (कार्यालय),
एतद द्वारा प्रमाणित करता/करती हूँ पिछले सात साल (31.03.20 _____ तक) में एक स्थान से दूसरे स्थान पर मेरे
_____ (अंको व शब्दों में) स्थानांतरण हुए जिनका विवरण नीचे दिया गया है-

I, _____ (Name) _____ (rank/ designation) of _____ (office), do
hereby certify that during the past 7 years (up to 31.03.20 _____ I have been transferred _____
times (in figures & in words) from one station to another, the details of which are given as under :-

| क्र. स. S. No. | कार्यालय/ यूनिट Office/Unit | स्थान Place | रैंक/पदनाम Rank/Designation | दिनांक/Date | | ठहरने की अवधि Period of stay | आदेश संख्या Order No. |
|-------------------|--------------------------------|----------------|--------------------------------|-------------|-------|---------------------------------|--------------------------|
| | | | | से/ From | तक/To | | |
| 1. | | | | | | | |
| 2. | | | | | | | |
| 3. | | | | | | | |
| 4. | | | | | | | |
| 5. | | | | | | | |
| 6. | | | | | | | |
| 7. | | | | | | | |

में जानता/जानती हूँ कि यदि उपरोक्त तथ्य गलत पाए गए तो मेरा बच्चा केन्द्रीय विद्यालय में प्रवेश के लिए
अयोग्य हो जाएगा। I know that if the above-mentioned facts are found incorrect, my child will be disqualified for
admission in Kendriya Vidyalaya.

माता/पिता के हस्ताक्षर
Signature of Parent

प्रतिहस्ताक्षर/Countersignature

में, _____ (नाम) _____ (रैंक/पदनाम) _____
(कार्यालय), एतद द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि उपरोक्त विवरण को कार्यालय-आलेखों से जाँच लिया गया है व सही
पाया गया है।

I, _____ (name) _____ (rank/designation) of _____
(unit/department) hereby certify that the particulars given in above have been authenticated by the records held in
the office and found correct.

कार्यालय अध्यक्ष के हस्ताक्षर
(नाम, पद और कार्यालय की मोहर सहित)

स्थान/Place _____

Signature of Head of the Office

दिनांक/Date _____

(With Name, Designation and Office Stamp)

कार्यालय का पूर्ण पता एवं दूरभाष संख्या _____
Complete address and Telephone No. of office _____

टिपण्णी/Note-

एक स्थान पर ठहरने की अवधि कम से कम छह मास होनी चाहिए।
Minimum period of posting/stay at a place should be minimum six months.